





यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढबास (अलवर)


प्रार्थना पत्र के अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट
वेदप्रकाश बनाम उम्मेद सिंह व अन्य अप्रार्थीगण

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
08.2021	<p>आज यह प्रार्थना पत्र के अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा वकील प्रार्थी ने दावे के साथ पेश किया। दावा वो प्रार्थना पत्र को पढा गया। वकील वादी/प्रार्थी को एक पक्षीय सुना गया। वहस वकील प्रार्थी वो प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दरतावेजात वो शपथ पत्र प्रार्थी से प्रार्थी का प्रथम दृष्टया मामला प्रतीत होता है। सुविधा सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में है नापूर्ति क्षति भी प्रार्थी को ही है।</p> <p>अप्रार्थीगण को जर्ये अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 07.09.2021 तक इस अमर से पाबन्द किया जाता है कि अप्रार्थीगण/प्रतीवादी वर्णित आराजी हाल खसरा नम्बर 1728 रकबा 0.2300 हे0, 1729 रकबा 0.4000 हे0, किता 2 रकबा 0.6300 हे0, 1716 रकबा 0.5800 हे0, 1719 रकबा 0.4200 हे0, 1730 रकबा 0.2700 हे0, 1732 रकबा 0.1100 हे0, 1748 रकबा 0.2900 हे0, 1753 रकबा 0.4200 हे0 किता 6 रकबा 2.0900 हे0, 1717 रकबा 0.1500 हे0, 1745 रकबा 0.4400 हे0, 1727 रकबा 0.0500 हे0 वाके ग्राम इस्माईलपुर तहसील किशनगढबास को जिला अलवर राजस्थान में आगामी तारीख पेशी तक रिकॉर्ड एव मौके की यथास्थिति बनाये रखे।</p> <p>तथा क्योना यह आज्ञा ताफैसला दावा स्थाई कर दी जावे जो भी आपत्ति हो हाजिर अदालत होकर उत्तर पेश करे, वकील प्रार्थी इस अमर का रजिस्टर्ड ए.डी. तलबानापेश करे। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर दिनांक 07.09.2021 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">  उपखण्ड अधिकारी किशनगढबास(अलवर) </p> <p> 7-9-21 वकील प्रार्थी द्वारा। पूर्वनिषेधाज्ञा परावली दिनांक 25-10-21 की पेश हो </p> <p> 25-10-21 पत्रावली पेश हुई। पी.ओ. शाहब अन्य कार्य में व्यस्त हैं/बाहर पधारे हैं। उभयपक्ष के अभि.उप. आयन्दा दिनांक 29-11-21 को पेश हो। </p> <p style="text-align: center;">  रीडर </p>	

13-12-22 ~~ज्ञात पत्रावली उपासक गानों के संग क्रमियात में गाएंगे~~
~~मुख्यालय पर पेश निर्गम नहीं है समाप्ति 09-02-22~~
को पेश है। 

02-02 पत्रावली पेश हुई। पी.ओ. साहब ~~मुख्यालय~~
अन्य कार्य में व्यस्त हैं/बाहर पधारे हैं।
उभयपक्ष के अभि.उप. आयुष्मा दिनांक 04-02
को पेश हो।


रीडर

04-02 ~~वकील वकील डबल। अर्थात् की वकील डबल वकील~~
~~की पेश की शामिल है। वकील वकील~~
दिनांक 14-02 को पेश है। 

14-02-22 पत्रावली पेश हुई। पी.ओ. साहब
अन्य कार्य में व्यस्त हैं/बाहर पधारे हैं।
उभयपक्ष के अभि.उप. आयुष्मा दिनांक 12-7-22
को पेश हो।

रीडर

12-7-22 पत्रावली पेश हुई। पी.ओ. साहब
अन्य कार्य में व्यस्त हैं/बाहर पधारे हैं।
उभयपक्ष के अभि.उप. आयुष्मा दिनांक 22-08-22
को पेश हो।

रीडर

22-8-22 पत्रावली पेश हुई। पी.ओ. साहब
अन्य कार्य में व्यस्त हैं/बाहर पधारे हैं।
उभयपक्ष के अभि.उप. आयुष्मा दिनांक 24-8-22
को पेश हो।


रीडर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़-बास (अलवर)

दिनांक	हुकम या कार्यवाही मय हनिशियल जज
24-8-22	<p style="text-align: center;">वैपुलकाश / उमेश</p> <p>वकील पद्मकारण उप० मूलवाद के साथ सिंक्र 4-10-22 को पेश है।</p>
4-10-22	<p>वकील पद्मकारण उप० मूलवाद के साथ सिंक्र नो पेश 1-11-22 है।</p>
7-11-22	<p>वकील पद्मकारण उप० मूलवाद के साथ सिंक्र को 14-11-22 पेश है।</p>
14-11-22	<p>पतावली पेश है। वकील पद्मकारण उप० मूलवाद प्रारम्भिक डिमी है उन्हाँ पद्मकारण ने सहमतिये प्रार्थना पत्र 2।2 TC ता फेमेलापवा स्थिति विवेचन है पद्मकारण को चाफद किया जाता है प्रार्थना पत्र फेरल उभार होकर सलक मूलवाद रहे।</p>